



चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Department of Medical, Health & Family Welfare

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan



सत्यमेव जयते

Helpline Number
for corona-virus

Rajasthan
0141-
2225624/2225000
Toll Free No:
104/108

National Call Center
No
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075

Whatsapp Chatbot
+911412225624

Helpline Email ID
for corona-virus :
rajasthan_idsp[at]
yahoo[dot]co[dot]in

COVID Facilities in
Rajasthan
(27.06.20)

Frequently Asked
Questions on
(FAQs)

Mobile Application
RSMP



RSMP मोबाईल ऐप डाउनलोड
करने के लिए Q.R.Code Scan
करें।



Rajasthan Teleconsultation
Services

[Click Here for Main Website](#)

Novel Corona Virus (COVID-19)

Home	Travel Advisories	Behavioural Health	Citizens	Hospitals	States/Departments/ Ministries	Employees	Awareness Material
------	-------------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------

2572191
Total Sample
Collected

2472374
Negative
Cases

97376
Positive
Cases

80482
Cured /
Recovered

2441
Report
Awaited

1192
Cumulative
Death



श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान



डॉ. रघु शर्मा
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थान



डॉ. सुभाष गर्ग
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री,
राजस्थान

District Wise Status of COVID-19 Date-10.09.2020 (Time 08:30 P.M.)						
S.No	District	Total Sample Received	Today's Positive	Cumulative Positive	Cumulative Recovered	Cumulative Discharged
1	AJMER	106644	50	4967	4530	4530
2	ALWAR	110474	56	8677	8000	8000
3	BANSWARA	20295	28	807	610	610
4	BARAN	26711	23	941	630	630
5	BARMER	56228	24	2450	2300	2300
6	BHARATPUR	73135	26	3877	3650	3650
7	BHILWARA	79669	28	2458	2090	1380
8	BIKANER	140315	40	5054	4750	4750
9	BUNDI	20129	31	889	499	499
10	CHITTORGARH	37527	25	1181	950	600
11	CHURU	56160	29	1186	990	990
12	DAUSA	28920	5	666	568	568
13	DHOLPUR	78557	32	2486	2270	2270
14	DUNGARPUR	67494	19	1229	1020	930
15	GANGANAGAR	22995	26	826	670	670
16	HANUMANGARH	25246	24	514	410	410
17	JAIPUR	291142	329	14001	8750	8750

18	JAISALMER	42710	14	524	367	340
19	JALORE	85236	20	1441	1328	1328
20	JHALAWAR	56213	39	2048	1670	1670
21	JHUNJHUNU	48369	25	1186	1061	1061
22	JODHPUR	334502	320	14249	12327	12327
23	KARALI	22825	3	669	551	551
24	KOTA	169845	177	7067	4399	4399
25	NAGPUR	92465	43	2697	2420	2420
26	PALI	101322	37	4459	4260	4260
27	PRATAPGARH	22131	10	567	370	370
28	RAJSAMAND	42137	9	1372	1175	1175
29	S.MADHOPUR	37238	22	663	478	462
30	SIKAR	85245	55	2962	2700	2700
31	SIROHI	43259	32	1474	1300	1300
32	TONK	27107	20	804	663	663
33	UDAIPUR	114019	19	2648	2455	2410
Other State/country		5927	0	189	123	93
Total		2572191	1640	97228	80334	79066
Other (Italy)		0	2	2	2	2
Evacuees		0	61	61	61	61
BSF		0	85	85	85	85
G Total		1640	97376	80482	79214	

COVID Facilities in Rajasthan

LATEST UPDATES

प्रेस-विज्ञप्ति
(Only for Private Sector)

1.(Only for Private Sector) Details of Manpower willing to work for COVID-19 patient

2. (Only for Private Sector) Details of hospital voluntarily agreeing to provide services for the treatment of COVID-19 patient

कोरोना वायरस (Corona Virus Important Letter for Department)

State Officials/incharge for COVID 19

District Officials/ incharge for 19Corona

MoHFW Website

राजस्थान - सारक है

ख़तरा शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

सच शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा नया कोरोना वायरस कुत्तों या बच्चों को स्पर्शित करना है, घुसने से नहीं।

सच सभी उम्र के लोग इस वायरस (nCoV-2019) से संक्रमित हो सकते हैं। घुसने और पहले से कमजोर रहने (जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, दिल के मरीज) वाले संक्रमण से जल्द बस हो अव्यक्त बीमार हो जाते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा विटामिन-सी के भरपूर सेवन से कोलेरा संक्रमण को ठीक करने में मदद मिल सकती है।

सच विटामिन-सी के नियमित सेवन से प्रतिरक्षा बढ़ती है। लेकिन, इसके अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलेरा का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है।

सच ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा ऊष्मान अति 5 दिनों तक है।

सच "ऊष्मान अति" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए ऊष्मान अति 1-14 दिनों तक है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा एक चीनी चिक्किस्क के मुताबिक कोलेरा वायरस - का इलाज है एक कटोरी लहसुन।

सच ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा कोविड डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद बचें दूसरों को भी बचाएं।

सच कोविड डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद बचें दूसरों को भी बचाएं।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा क्या घर के सदस्यों को भी आवास में दूरी रखनी है?

सच हाँ। जिसका संभव हो उसकी दूरी रखनी चाहिए। आवास और 12-14 मीटर से अधिक उम्र के लोगों, नवजात शिशुओं और वृद्धों को भी दूरी रखनी है।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा कोविड डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद बचें दूसरों को भी बचाएं।

सच कोविड डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद बचें दूसरों को भी बचाएं।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा लोगों से दूरी बनाए रखें। कोरोना से दूरी बनी रहेगी।

सच लोगों से दूरी बनाए रखें। कोरोना से दूरी बनी रहेगी।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा विश्वास में रहें। निवास में रहें।

सच विश्वास में रहें। निवास में रहें।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

राजस्थान - सारक है

ख़तरा कोरोना वायरस के संकेत दिखाने दिनों में दिखते हैं।

सच कोरोना वायरस के संकेत दिखाने दिनों में दिखते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए और घुसने से भी सुरक्षित रहें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें। और न केवल घुसने से बचें, बल्कि घुसने से भी बचें।

**दिल दिया है जा भी देंगे
ऐ वयन तेरे लिए**

आशा कार्यकर्ता हार नहीं जाए
संकट काल में आज आपने क्या योगदान दिया?

ASHA workers make masks at home amid Covid battle



**आइये, हम सब की किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दें,
इस महामारी से निपटने में**

COVID19 को रोकने से सुनिश्चित करें और दूसरी को भी सुनिश्चित करें
आपका योगदान है info.raghuvaran@yahoo.co.in या संपर्क करें
द्वारा 098960 33333 या 098960 33333

श्रमचरण सार्वभौम

घर पर दूरदर्शन हाइड साहसी, भोजन बंद डिस्को।
हम घर से बाहर निकलकर जा रहे हैं, हमारी मेहनत केवल ॥



COVID-19 की वजह से हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें घर से ही अपने दैनिकी की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए हमें घर से ही अपने दैनिकी की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए हमें घर से ही अपने दैनिकी की चीजें खरीदनी पड़ती हैं।

आज का दिन: २२-०५-२०२०
आज का दिन: २२-०५-२०२०
आज का दिन: २२-०५-२०२०

अधिक जानकारी के लिए rajswasthya.nic.in पर सम्पर्क करें

राजस्थानीय स्वास्थ्य सेवा

दूसरी को मदद भी सावधानी और सतर्कता से करनी है



NO CROWD

NO SOCIAL GATHERING

NO GROUP KITCHEN

COVID-19 की रोकथाम के लिए दूसरी को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखने में सहायता करनी है।
 1. घर पर या बाहर भी सदा ही 2 मीटर दूरी बनाए रखें।
 2. सदा ही मास्क पहनें।
 3. सदा ही हाथ धोएं।
 4. सदा ही सतर्क रहें।

अधिक जानकारी के लिए rajswasthya.nic.in पर सतर्क रहें।

स्वास्थ्य सतर्कता, सतर्कता

[illegible][illegible]

कोरोना वायरस से बचाव के पांच सबसे महत्वपूर्ण उपाय



1. अपने मास्क को अक्सर धोने की सलाह दी जाती है।



2. हाथों में सेब, साबुन या 60% से अधिक एंटीसेप्टिक वाले हाथों धोने के सैनिटाइजर का उपयोग करें।



3. अपने काम, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर अपने मास्क को सही तरीके से पहनें और पहनें।



4. अपने काम, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर अपने मास्क को सही तरीके से पहनें और पहनें।

COVID-19 को रोकने से जुड़े अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑनलाइन चैट बॉट्स से बात करें।

ऑनलाइन चैट बॉट्स से बात करें: www.aarogyaatma.in या 121 पर कॉल करें।

संपर्क करें: info@aarogyaatma.in या 011-263849441, 011-263849452, 011-263849463

#आरोग्यात्मा सतर्क है

[illegible]

